



प्रेस नोट थाना सैदनगली


दिनांक 26.09.2021

श्रीमती पूनम पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देशन में शातिर अपराधियों के विरुद्ध कार्यावाही जारी ।

थाना सैदनगली पुलिस द्वारा विद्यालय में चोरी की घटना का सफल अनावरण कर शातिर चोर व चोरी का माल खरीदने वाले कबाडी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल 13 सिलिंग फैन, 39 पंखडी, 20 टोटी बरामद ।

अवगत कराना है कि अम्बेडकर राजकीय इण्टर कॉलेज कस्बा उझारी थाना सैदनगली से अज्ञात चोरों द्वारा पंखे, टोटी व आदि सामान चोरी करने के सम्बन्ध में दिनांक 07.09.2021 को वादी/प्रधानाचार्य डॉ० शमशाद अली की तहरीर पर थाना सैदनगली पर मु०अ०सं० 229/21 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विद्यालय में हुई चोरी की घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा प्रभारी थाना सैदनगली को घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती पूनम के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में उक्त चोरी की घटना का खुलासा करते हुए थाना सैदनगली पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.09.2021 को इकोंदा चौराहे से अभियुक्त अमजद पुत्र नफीस अहमद निवासी मौ० गढी निकट जामा मस्जिद कस्बा उझारी थाना सैदनगली, अमरोहा को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया जिसने पूछताछ पर चोरी का कुछ माल कबाडी का कार्य करने फुरकान पुत्र मुन्ने निवासी मौ० जमाईपुरा कस्बा उझारी थाना सैदनगली जनपद अमरोहा को बेचना बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अमजद की निशादेही पर अभियुक्त फुरकान को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से विद्यालय से चोरी किये गये 13 सिलिंग फैन(पंखे), 39 पंखडी व 20 बाथरूम की टोटी बरामद हुए।





गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अमजद पुत्र नफीस अहमद निवासी मौ0 गढी निकट जामा मस्जिद कस्बा उझारी थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
2. फुरकान पुत्र मुन्ने निवासी मौ0 जमाईपुरा कस्बा उझारी थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।

बरामदगी:-

1. 13 सिलिंग फैन(पंखे), 39 पंखडी व 20 बाथरूम की टोटी ।

अपराधिक इतिहास:-

1. 229/21 धारा 380,411,413 भादवि थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष सतेन्द्र सिंह थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 संत कुमार थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
3. का0 992 अंकित कुमार थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
4. का0 653 आशीष कुमार थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।